

एपीनिक 55 में सामुदायिक चर्चा के लिए चार नीतिगत प्रस्ताव रखे जाएँगे

एपीनिक 55 सम्मेलन में [खुली नीति बैठक](#) 01 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी। चर्चा के लिए चार नीति प्रस्तावों का सार-संक्षेप यहाँ दिया गया है।

प्रॉप-147: ऐतिहासिक संसाधन प्रबंधन

22 फरवरी 2021 के इसी संकल्प के अनुसार, एपीनिक क्षेत्र में ऐतिहासिक संसाधन धारकों को पंजीकरण सेवाएँ मिलना जारी रखने के लिए 1 जनवरी 2023 तक सदस्य या गैर-सदस्य बनने की आवश्यकता होगी। इस तिथि के बाद ऐतिहासिक संसाधन पंजीकरणों को अब एपीनिक हूइज़ डेटाबेस में प्रकाशित नहीं किया जाएगा, और संसाधनों को आरक्षित स्थिति में रखा जाएगा।

यह प्रस्ताव ऐसी प्रक्रिया का सुझाव देता है, जिसमें संरक्षक उन ऐतिहासिक संसाधनों के लिए दावा कर सकते हैं जिन्हें आरक्षित के रूप में चिह्नित किए जाने की तिथि के 12 महीनों के अंदर आरक्षित के रूप में चिह्नित कर दिया गया है। यदि 12 महीनों के अंदर कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो आरक्षित संसाधनों को पुनःआवंटन के लिए निःशुल्क समूह में जमा कर दिया जाएगा।

प्रस्ताव में यह सुझाव भी दिया गया है कि खाता बंद कर दिए जाने के कारण एपीनिक द्वारा आरक्षित और/या पुनःप्राप्त किए गए ऐतिहासिक संसाधनों की 'ऐतिहासिक' पदस्थिति समाप्त हो जाएगी और वे पुनःआवंटन के लिए 'वर्तमान' संसाधन बन जाएँगे।

प्रॉप-149: कुल आईपीवी4 होल्डिंग्स के /21 से कम के लिए अधिकतम आवंटन में परिवर्तन

यह प्रस्ताव नए एपीनिक खाता धारकों के लिए अधिकतम आईपीवी4 आवंटन का आकार /23 से बढ़ाकर /22 करने और अनुरोध किए जाने पर ऐसे एपीनिक खाताधारकों को अतिरिक्त /23 आवंटित करने का सुझाव देता है, जिनके पास आईपीवी4 संसाधनों की कुल संख्या के /21 से कम संसाधन हैं।

इस प्रस्ताव के तहत जिन एपीनिक खाताधारकों के पास आईपीवी4 संसाधनों की कुल राशि /21 के बराबर या इससे अधिक है, वे अतिरिक्त आईपीवी4 आवंटनों के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रॉप-150: निजी, आरक्षित और अनावंटित (आरक्षित/उपलब्ध) मूल एएसएन के साथ आरओए/हूइज़ ऑब्जेक्ट

यह प्रस्ताव एपीनिक को निजी, आरक्षित या अनावंटित एएसएन के साथ आरओए बनाने के खाताधारक के अधिकार को प्रतिबंधित करने का सुझाव देता है।

प्रस्ताव में यह सुझाव भी दिया गया है कि यदि खाताधारकों के आरओए में मूल एएसएन अनावंटित (आरक्षित/उपलब्ध) है, तो एपीनिक उन्हें इसके बारे में सूचित करे और अनावंटित (आरक्षित/उपलब्ध) एएसएन के साथ आरओए को स्वतः नवीनीकृत न करे।

प्रॉप-151: गैर-पदानुक्रमित ऐस-सेट पर प्रतिबंध

यह प्रस्ताव एपीनिक खाताधारकों को एक गैर-पदानुक्रमित ऐस-सेट बनाने से प्रतिबंधित करेगा, और जिन सदस्यों के पास पहले से ही गैर-पदानुक्रमित ऐस-सेट मौजूद हैं, उन सभी को सूचित किया जाएगा कि उन्हें एक पदानुक्रमित ऐस-सेट में स्थानांतरण करने की सलाह दी जाती है।

भाग लें! अपनी बात सामने रखें

अच्छी नीति समुदाय के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों की राय पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। परामर्श और आम सहमति की एक खुली, पारदर्शी और निचले स्तर की प्रक्रिया के माध्यम से नीति को विकसित किया जाता है।

पॉलिसी एसआईजी [मेलिंग सूची](#) की सदस्यता लेकर या [एपीनिक 55 पॉलिसी एसआईजी](#) मंच के दौरान व्यक्तिगत या दूरस्थ रूप से भाग लेकर इन नीति प्रस्तावों के बारे में अपनी बात सामने रखें।